

162


Schedule XLV-Form No. 134

BAGHA - I **DIVISION**

अनु **SUB-DIVISION**

MEASUREMENT BOOK 1374

नोट किया जाता है कि इस मापीपुस्तक
मशीन द्वारा टंकित क्र० सं०-०१ से १००५०
तक है। यह मापीपुस्तक सहायक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अवर, प्रमंडल
.....को निर्गत किया जाता है।


कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग
कार्य अवर, प्रमंडल-१
२६/६/११

Sch. XLV—Form No. 134

_____ DIVISION

_____ SUB-DIVISION

Measurement Book

No.

Name of Officer _____

Date of first entry _____

Date of last entry _____

Name to work—

1

Situation of work—

Agency by which work is executed—

Date of measurement—

No. and date of agreement.

(These four lines should be repeated at the commencement of the measurements relating to each work.)

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No	L	B.	D.	
Name of the work:					
Road breadth (Damaged by flood) for Motorability in construction of H.C. R.C. Bridge at Sheikh Toli in Between Markatiyaganj Assembly Constituency and Lucknow Assembly Constituency in Bagaha RWD Road To Dumrao					

FY :	2021-22
Head :	F.D.R.

MEASUREMENT	
-------------	--

Item No-1/2	
Providing m/c for laying Brick bat	7/5

$1 \times 22.40 \times 1.25 + 1.65$	$0.45 + 0.25$
$\frac{2}{2}$	$\frac{2}{2}$
$= 9.02$	
$1 \times 6.65 \times 3.75 + 3.69$	$0.95 + 0.91$
$\frac{2}{2}$	$\frac{2}{2}$

Continuation

= 23.01

Sch. XLV—Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No	L	B	D	
		1 x 6.21	3.90 + 3.78		$\times \frac{0.84 + 0.75}{2}$
				2	$\frac{2}{2}$
					= 19.55 m ³
		1 x 16.50	3.80 + 3.70		$\times \frac{0.70 + 0.60}{2}$
				2	$\frac{2}{2}$
					= 40.22
					91.80 m ³
Item No - 2/3					
Providing sand Bag — 1/5					
		2 x 3 x 58			= 348 Nos
		1 x 5 x 102			= 510 Nos
					858 Nos
Item No - 3/2					
Providing M/C for laying Brick Bat — 1/5					
		1 x 22.40	0.50 + 4.10		$\times \frac{0.20 + 0.30}{2}$
				2	$\frac{2}{2}$
					= 41.55 m ³

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L	B	D	
4x					
1x	4.00	6.00	5.00		$\times 0.45$
				2	
					$= 9.90 \text{ m}^3$
1x	3.00	0.48	0.42		$\times 0.65$
				2	
					$= 8.10$
1x	16.50	13.80	8.70		$\times 0.65$
				2	
					$= 40.22$
					99.77 m^3

Item No - 4/3

Providing Sand bag — 7/5

1x	5	330	=	1650 Nos
1x	2	16	=	32 Nos
				1682 Nos

Item No - 5/2

Providing M/C for laying
Brick Bat — 7/5

1x	21.00	5.50	4.10		$\times 0.30$
				2	
					$= 27.83$

Continuation

Continuation

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No	L	B	D	
ABSTRACT OF COST					
Hem No- 1/2					
Providing M/C for laying Brick bat					T/S
From T.P.B. page no- 2					
					Qty = 91.80
From T.M.B. page no- 3					
					Qty = 99.77
From T.P.B. page no- 4					
					Qty = 52.33
					243.90 m ³
					@ Rs. 2048.30/m ³
					= Rs. 499580.00
Hem +16 - 2/3					
Providing sand Bag - T/S					
from T.P.B. page no- 2					
					Qty = 858 Nos
From T.M.B. page no- 3					
					Qty = 1682 Nos
					2540 Nos
					@ Rs. 21.75/No
					= Rs. 55245.00
					Rs. 554825.00

Sch. XLV—Form No. 134

Particulars	Details of actual measurement				Contents of area
	No.	L	B.	D.	
					Rs. 554825.00
Add G.V.F. @ 12%.					= Rs. 66579.00
Add C.C. @ 1%.					= Rs. 5548.00
Add S.F.					= Rs. 11484.00
					Rs. 638436.00

by J.E.


05-11-2011

J.E.

Rs. 638436.00

5/11/21
AE

UP



E.E.